



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2010/कार्तिक 12, 1932

No. 290]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2010/KARTIKA 12, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2010

सं. 15 (आर ई-2010)/2009-2014

विषय : रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद समूह के अधीन सिओन क-3559 का संशोधन ।

फा. सं. 01/82/171/00001/ए एम-08/डीईएस-3.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया पुस्तक खंड 2 (खंड 1 के पैराग्राफ 1.1 में यथाउल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :—

‘रसायन एवं संबद्ध उत्पाद’ उत्पाद समूह का सिओन क-3559

(उत्पाद कोड : क)

पूर्व प्रविष्टि :

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
क-3559	बुटाडीन (ओलेफिन काम्प्लेक्स से)	1 मी. टन	नैफ्था	1.864 मी. टन

संशोधित प्रविष्टि :

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
क-3559	1, 3-बुटाडीन	1 मी. टन	नैफ्था	1.864 मी. टन

इस संशोधन का प्रभाव : इसका प्रयोजन निर्यात उत्पाद का रासायनिक नाम दर्शाना है । यह नाम ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रचलित है । अनुमत निविष्टि की मात्रा में कोई बदलाव नहीं है ।

अनुप के. पुजारी, विदेश व्यापार महानिदेशक

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 3rd November, 2010

**No. 15 (RE-2010)/2009-2014****Subject : Modification of SION A-3559 under Chemical and Allied Products Group.**

**F. No. 01/82/171/00001/AM-08/DES-3.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the following amendment is made in the Handbook of Procedure Vol. II (as stated in paragraph 1.1 of Vol. I):

**SION A-3559 of the Product Group “Chemicals and Allied Products”****(Product Code : A)****Earlier Entry :**

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
A-3559	Butadiene (from Olefin Complex)	1 MT.	Naphtha	1.864 MT.

**Amended Entry :**

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
A-3559	1, 3-Butadiene	1 MT.	Naphtha	1.864 MT.

**Effect of this amendment :** Purpose is to reflect the Chemical Name of the Export Product. This is also the name prevalent in International Market. There is no change in the quantity of input permitted.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade